

[This question paper contains 2 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 5578

L

Unique Paper Code : 2274000020

Name of the Paper : Public Finance in India

Name of the Course : **Common Pool of GE**

Semester : IV/VI/VIII

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

समय : 3 घण्टे

पूर्णांक : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. There are 7 questions in the question paper. Answer any 5 questions.
3. All questions carry equal marks.
4. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. प्रश्न पत्र में 7 प्रश्न हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें।
3. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
4. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. (a) Discuss the need for increasing progressivity in India's tax system. What measures can be adopted to achieve greater equity? (9)
(b) Critically examine the GST implementation in India in terms of cost efficiency, productivity gains, and revenue generation. (9)
2. (a) What do you understand by an annual financial statement? Explain its various components. (9)
(b) Analyse the trends in tax revenue in India and what ails the Indian Tax System? (9)
3. (a) Discuss the key recommendations of the FRBM Review Committee. (9)
(b) Explain the difference between : (4.5+4.5)
(i) Fiscal Deficit and Primary Deficit
(ii) Consolidated Fund and Contingency Fund
4. (a) Focus the light on 'Fiscal Federalism in India since 1991. (9)
(b) Discuss the criteria for tax devolution adopted by the 15th Finance Commission. (9)
5. (a) Discuss the role of the Finance Commission in empowering local bodies in India. (9)

P.T.O.

- (b) Explain the significance of Universal PDS in addressing hunger in India. (9)
6. (a) Critically analyse how the growing influx of finance capital has transformed the healthcare industry in India. (9)
- (b) Discuss the contribution of government and non-governmental initiatives in improving educational outcomes. (9)
7. Short Note on **any two** : (9+9)
- (a) Public-Private Partnership in education
- (b) Out-of-Pocket Expenditure
- (d) Revenue Budget and Capital Budget in India
1. (क) भारत की कर प्रणाली में प्रगतिशीलता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। अधिक समानता प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? (9)
- (ख) लागत दक्षता, उत्पादकता लाभ और राजस्व सृजन के संदर्भ में भारत में जीएसटी कार्यान्वयन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (9)
2. (क) वार्षिक वित्तीय विवरण से आपका क्या तात्पर्य है? इसके विभिन्न घटकों की व्याख्या कीजिए। (9)
- (ख) भारत में कर राजस्व के रुझानों का विश्लेषण कीजिए और भारतीय कर प्रणाली की कमियों को बताइए। (9)
3. (क) एफआरबीएम समीक्षा समिति की प्रमुख अनुशंसाओं पर चर्चा कीजिए। (9)
- (ख) के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए : (4.5 + 4.5)
- (i) राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा
- (ii) समेकित निधि और आकस्मिक निधि
4. (क) 1991 से भारत में राजकोषीय संघवाद पर प्रकाश डालें। (9)
- (ख) 15वें वित्त आयोग द्वारा अपनाए गए कर हस्तांतरण के मानदंडों पर चर्चा करें। (9)
5. (क) भारत में स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने में वित्त आयोग की भूमिका पर चर्चा करें। (9)
- (ख) भारत में भूख की समस्या से निपटने में सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के महत्व को स्पष्ट करें। (9)
6. (क) वित्त पूंजी के बढ़ते प्रवाह ने भारत में स्वास्थ्य सेवा उद्योग को किस प्रकार रूपांतरित किया है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करें। (9)
- (ख) शैक्षिक परिणामों में सुधार लाने में सरकारी और गैर-सरकारी पहलों के योगदान पर चर्चा करें। (9)
7. किन्हीं दो विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी : (9 + 9)
- (क) शिक्षा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी
- (ख) जेब से व्यय
- (घ) भारत में राजस्व बजट और पूंजी बजट